

SUMMER  
HOLIDAYS  
HOMEWORK





## PM SHRI KENDRIYA VINDYALAYA NO 2 ,KOTA



CLASS

V

Subject

ENGLISH

1. Write about your best friend (5-6 lines).
2. Make a list of 10 things you love about summer.
3. Write a short poem about "Sun".
4. Find 5 new words from a storybook. Write meanings.
5. Make a poster about "Save Water".
6. Write a letter to your teacher about your holidays.
7. Read a newspaper headline and make a drawing about it.
8. Find and copy 5 slogans from newspapers.
9. Write 5 lines about your dream pet.
10. Read a short story and write its ending differently.
11. Draw and name 5 things you can see on a beach.
12. Write a recipe of your favourite summer drink.
13. Find 5 words starting with 'ST'. Make sentences.
14. Write a small story that begins with "One summer morning...".
15. Design a travel ticket to your dream place.
16. Create your own superhero and describe their powers.
17. Watch an English cartoon and write 5 new words you learned.
18. Write 5 lines about your favourite holiday spot.
19. Make a "Thank You" card for your parents.
20. Pick an object near you and describe it in 5 lines.
21. Write a joke or riddle in English.
22. Make a list of 5 animals that live in water.



## PM SHRI KENDRIYA VINDYALAYA NO 2 ,KOTA




CLASS

V

Subject

MATHS

- Write the ages of your family members and arrange them from youngest to oldest.
- Count all the doors and windows in your house.
- Find 5 things at home that are in the shape of a circle.
- Write the prices of 5 grocery items. Add them.
- Find the distance from your house to a nearby shop (ask or guess).
- Draw 5 different shapes and name them.
- Make a list of 10 even numbers and 10 odd numbers.
- Take a clock. Draw the time you wake up and sleep.
- Find the weight (in kg) of 5 things in your kitchen.
- Write down today's date in numbers and words.
- Draw a calendar for June.
- Measure your height and your sibling's height. Who is taller?
- Make your own bill of a shopping trip with 5 items.
- Solve:  $25 + 17 - 12 + 34 = ?$
- Solve: Multiply 3 numbers between 2 to 9.
- Write a 3-digit number and expand it. Example:  $452 = 400 + 50 + 2$

- 
- Make your own Maths word problem and solve it. Using  $+$ ,  $-$ ,
  - Draw 5 patterns using shapes (example: triangle-circle-triangle).
  - Find out how many minutes you sleep each night.
  - How many legs in total: 2 chairs + 3 tables + 4 beds?
  - Write the names of 5 famous Indian Mathematicians.
  - Write and learn multiplication tables (2 to 20).
  - Make a maths puzzle or quiz for your friends!
  - Frame 5 word problems on each mathematical operation  $+$ ,  $-$ ,  $\times$ ,  $\div$
  - Take the last 5 digits of your father's/mother's mobile number. (Take 10 such numbers ) i.
  - Rearrange the digits to form the largest 5-digit number.
  - Collect 5 mathematical puzzles from a newspaper or a magazine. Draw or paste on an A4 sheet
  - Make a working model of a clock
  - Make a board game (Ludo, Snakes and Ladders, Chess)
  - Find the pin code of 10 cities/states.i)Present the above data in a tabular form. Write the sum of any 3 PIN codes.
  - Find the difference between the greatest and smallest PIN code
  - Write your Name with the help of sticks on an A4 SHEET and count the total number of angles in your name
  - Find the diameter of all 8 planets. Arrange them in ascending order and also write in words.

NOTE- Do all your work in separate notebook.





PM SHRI KENDRIYA VINDYALAYA NO 2 ,KOTA



CLASS

V

Subject

HINDI

1. अपने परिवार की एक दिनचर्या लिखें और उसमें क्रिया शब्द (doing words) को रेखांकित करें।
2. पाँच संज्ञा शब्द और पाँच विशेषण शब्द चित्र सहित अपनी कॉपी में लिखें
3. घर में उपयोग होने वाली 10 वस्तुओं के नाम लिखें और उन्हें एकवचन/बहुवचन में बदलें।
4. हर सप्ताह एक कहानी पढ़ें और उसका सारांश अपनी भाषा में लिखें।
5. अपने दादा -दादी या माता- पिता से एक पुरानी कहानी सुनें और चित्र सहित लिखें.
6. प्रतिदिन 10 मिनट हिंदी लेख सुधार अभ्यास करें।
7. कोई एक नया कौशल जैसे ( खाना बनाना , चित्रकारी ) सीखें और उसके बारे में पाँच वाक्य लिखें।
8. प्रतिदिन अखबार पढ़ें और रोज अखबार से एक नया शब्द ढूंढ कर अपनी कॉपी में लिखें।
9. हिंदी में छात्र प्रतिज्ञा याद करो ।
10. छुट्टियों के अनुभव पर आधारित एक छोटा सा लेख लिखें।



## PM SHRI KENDRIYA VINDYALAYA NO 2 ,KOTA



CLASS

V

Subject

EVS

1. Plant a sapling and maintain a weekly observation with pictures of its growth.
2. Make a nature scrapbook with leaves, feathers ,or flowers you find .
3. Create a "My Green Promise" chart – list 5 things you will do to help nature.
4. Observe the moon for the one month and draw what you see.
5. Avoid using plastic for a week and write your experiences.
6. Talk to your grandparents about how the environment was in their childhood and note the differences.
7. Collect and reuse waste materials to make an eco-friendly craft.
8. Visit a park or garden and write 5 things you learned about plants and animals.
9. Create a colorful poster/chart on "Save Nature, Save Future."
10. Revise bridge course topics up to week 3 .